



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 13—फरवरी 19, 2010 (माघ 24, 1931)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 13—FEBRUARY 19, 2010 (MAGHA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 101, दिनांक 25 जनवरी 2010

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी 2010

सं. ए-22012/2/2010-पीएमए (स्था.-I)--श्री एम. के. नारायणन, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 23 जनवरी, 2010 के अपराह्न से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

सं. आरएस/1289/स्था. (कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री एस. के. कथूरिया, संयुक्त सचिव 31 जनवरी, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. आरएस/2274/स्था. (कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री मंगत राय वर्मा, संयुक्त निदेशक 31 जनवरी, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. ए-22012/2/2010-पीएमए (स्था.-II)--राष्ट्रपति, श्री शिवशंकर मेनन, भा.वि.से. (सेवानिवृत्त) को दिनांक 23 जनवरी, 2010 के अपराह्न से, अगले आदेश होने तक राज्य मंत्री के रैंक तथा स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करती हैं।

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2010

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए-43011/06/2009-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/2009-सीएसआई

(यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति जी, योजना आयोग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से नियमित आधार पर अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष/ सीएसएल संख्या	नियमित नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती सुनीता बेक	2006 (6563)	01.07.2006
2.	श्री कंवर एम. एस. खालसा	2007 (5835)	01.07.2007
3.	श्री सुभाष चन्द्र	2008 (6040)	01.07.2008

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त का. जा. में संलग्न चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता, ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीखों पर ध्यान दिए बिना, उसी क्रम में होगी जिस क्रम में उनके नाम हैं। नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 13352/2005, नई दिल्ली स्थित कैंट में ओए संख्या 3294/2009 श्री पी. आर. शर्मा बनाम यूओआई के मामले तथा ओए संख्या 2674/2009 श्री पी. एस. भंडारी बनाम यूओआई एवं अन्य के मामले में अन्तिम निष्कर्ष के अधीन होगी।

3. अवर सचिव के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति की उपर्युक्त तारीखें केवल सेवा अनुमोदन तथा सैद्धान्तिक (नोशनल) आधार पर अवर सचिव के रूप में उनके वेतन निर्धारित करने के लिए होगी। तथापि, वास्तविक लाभ उन्हें उसी तारीख से उपलब्ध होंगे जिस तारीख से सीएसएस के अवर सचिव ग्रेड में उनकी नियुक्ति की गई है।

4. ये अधिकारी अवर सचिव के पद पर उनकी वास्तविक स्थिति की तारीखों से उनके वेतन के पुनः निर्धारण के कारण बकाए के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी एफआर-22 के प्रावधानों के अनुसार उनका वेतन निर्धारित करने संबंधी विकल्प का लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। तथापि, ऐसे अधिकारी, जिनकी तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नति उनके चयन सूची वर्ष में 1 जुलाई से पूर्व हुई थी और जिन्होंने एकमात्र विकल्प (स्पलिट ऑप्शन का) लाभ प्राप्त कर लिया है, वे इस विकल्प के पात्र नहीं होंगे।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 25 जनवरी 2010

सं. एफ-6(2081)/2009-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 जनवरी, 2010 के पत्र सं. 22/1/2010-ईओ (एस.एम. 1) के अनुसरण में, श्री आर. भट्टाचार्य, आईएएस (एपी : 78) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में उनका नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 27 जनवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. ए-3 12/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री जी. एस. यादव, सहायक विधि सलाहकार को दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी उपयुक्त अधिकारी के नियुक्त किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3, (रु. 15,600—39,100/- + रु. 7,600/- ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से वह उप विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई यह सेवा उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री ई. सरवन कुमार, सहायक विधि सलाहकार को दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी उपयुक्त अधिकारी के नियुक्त किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3, (रु. 15,600—39,100/- + रु. 7,600/- ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से वह उप विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई यह सेवा उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्रीमती कुसुम लता सिंह, अधीक्षक (विधि) को दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी उपयुक्त अधिकारी के नियुक्त किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/- + रु. 6,600/- ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से वह सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई यह सेवा उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री एम. एस. तारीक, सहायक विधि सलाहकार को दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न

से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी उपयुक्त अधिकारी के नियुक्त किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3, (रु. 15,600—39,100/- + रु. 7,600/- ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से वह उप विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई यह सेवा उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी. के. साहा, सहायक विधि सलाहकार को दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर किसी उपयुक्त अधिकारी के नियुक्त किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3, (रु. 15,600—39,100/- + रु. 7,600/- ग्रेड वेतन) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से वह उप विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा की गई यह सेवा उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. के. 13011/3/2009-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री स्वतन्त्र कुमार को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. के. 13025/5/2009-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री संजय यादव (2) न्यायविद् श्री केदार सिंह चौहान (3) न्यायविद् श्री सतीश चन्द्र शर्मा (4) न्यायविद् श्री प्रकाश श्रीवास्तव और (5) न्यायविद् श्रीमती इन्द्राणी दत्ता को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, उप सचिव

सं. के. 13027/3/2009-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री विजय कृष्ण पटेल को उस तारीख, जब से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, उप सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. के. 11019/2/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री समिंदर रुद्रय्या बनुरमठ के सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री कुरियन जोसफ को दिनांक 23 जनवरी, 2010 से केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

सं. I-11014/8/2009-आई.पी.एस- IV--केन्द्र सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान और तमिलनाडु सरकारों की सहमति से श्री विजयेन्द्र बिदारी, आई पी एस (राजस्थान : 05) का विवाह सुश्री रोहिणी रामदास भाजीभाकरे, आई ए एस (तमिलनाडु : 2008) के साथ होने के आधार पर उन्हें एतद्वारा राजस्थान के आई.पी.एस. संवर्ग से तमिलनाडु के आई.पी.एस. संवर्ग में स्थानांतरित करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस- IV)

दिनांक 30 दिसम्बर 2009

सं. I-18011/16/2009-आई.पी.एस- IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	आई.पी.एस. परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	श्री अमरेश कुमार मिश्रा (2005)	25.8.05	24.8.07	25.8.07
2.	श्री शेख आरिफ हुसैन (2005)	12.12.05	11.12.07	12.12.07
3.	श्री मयंक श्रीवास्तव (2006)	29.8.06	28.8.08	29.8.08

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस- IV)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. ए. 32013/01/2010-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में कार्य कर रहे गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को संगत प्रवर सूची वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	सामान्य वरिष्ठता सूची क्रमांक	अधिकारी का नाम	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक जनवरी 07, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सीएस-1 (यू) के अनुलग्नक के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में दिया गया वरिष्ठता क्रमांक
----------	-------------------------------	----------------	---

प्रवर सूची 2004

1	2	3	4
---	---	---	---

1. 5230 श्री अरविंद मुखर्जी 55

प्रवर सूची 2005

2. 4742-क श्री एच. के. सुआनतंग 19  
 3. 5247 श्री एस. के. गांधी 33  
 4. 5251 श्रीमती ललित प्रभा श्रीवास्तव 37  
 5. 5255 श्री प्रीतम लाल 41  
 6. 5263 श्री आर. के. जैन (सेवानिवृत्त) 45  
 7. 5271 श्री वेद प्रकाश गुबरानी 49  
 8. 5332 श्री आर. वी. सुब्रमणि 67  
 9. 5337 श्री चन्द्र मोहन भाटला 69  
 10. 5376 श्री एम. के. चौधरी 96  
 11. 6082 श्री धर्म सिंह 102

प्रवर सूची 2006

12. 5385 श्री अजय कुमार सुम्बली 21  
 13. 5393 श्री अमर चन्द 26

प्रवर सूची 2007

14. 5673 श्री वी. विश्वनाथन 25  
 15. 5677 श्री बी. वी. रमण मूर्ति 28  
 16. 5694 श्री पी. वी. गुप्ता 42

1	2	3	4
17.	5760	श्री एम. के. भारद्वाज	55
18.	5777	श्री अजित कुमार साहू	68
19.	5833	श्री सी. एम. के. ठाकुर	115
20.	5954	श्री अरूण कुमार ध्यानी	136
प्रवर सूची 2008			
21.	5962	श्री टी. नरसिम्हन	8
22.	5996	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त)	25
23.	6054	श्री के. नटराजन	53
24.	6056	श्री रबीन्द्र प्रसाद गुप्ता	54
25.	6122	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पन्त	62
26.	6124	श्री विजय तहलान	64

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी 2010

सं. आई-14011/9/2009-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22.01.2010 को चयन समिति की दिनांक 09.12.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग में वर्ष 2009 में छः मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची--2009

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	बहादुर सिंह राठौर	24.03.1955
2.	एस. एन. खिन्वी	25.02.1959
3.	राजेन्द्र कुमार जोशी	02.07.1955
4.	सत्य वीर सिंह	01.09.1961
5.	राजेश मीणा	10.11.1067
6.	सवाई सिंह चौधरी	01.02.1958

2. उपर्युक्त चयन सूची सिविल याचिका सं. 266/2008, एवं 238-239/2009, (भंवर सिंह नथावत एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य), डी. बी. सिविल याचिका सं. 2900/2009 (ओम प्रकाश

शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) और एस. बी. सिविल याचिका सं. 5771/2009, 13209/2009 एवं 7430/2009, जिन्हें क्रमशः सर्वश्री एस. एन. खिन्वी, यू. एन. छानवाल एवं सवाई सिंह चौधरी ने दायर किया है, के परिणामों के अध्यधीन होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/9/2009-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत राजस्थान संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची--2009

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	बहादुर सिंह राठौर	24.03.1955
2.	एस. एन. खिन्वी	25.02.1959
3.	राजेन्द्र कुमार जोशी	02.07.1955
4.	सत्य वीर सिंह	01.09.1961
5.	राजेश मीणा	10.11.1067
6.	सवाई सिंह चौधरी	01.02.1958

2. उपर्युक्त नियुक्तियां सिविल याचिका सं. 266/2008, एवं 238-239/2009, (भंवर सिंह नथावत एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य), डी. बी. सिविल याचिका सं. 2900/2009 (ओम प्रकाश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) और एस. बी. सिविल याचिका सं. 5771/2009, 13209/2009 एवं 7430/2009, जिन्हें क्रमशः सर्वश्री एस. एन. खिन्वी, यू. एन. छानवाल एवं सवाई सिंह चौधरी ने दायर किया है, के परिणामों के अध्यधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. 13016/11/2008-प्रशि.-I--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव श्री राजीव कुमार कुंडी को दिनांक 27.11.2009 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (आई.एस.टी.एम.) नई दिल्ली में उप-निदेशक (प्रबंध सेवाएं) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनीता अलेक्जेंडर, अवर सचिव

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. 19011/1/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्रीमती तृप्ति पी. घोष, आईसीएस (1994) को दिनांक 01 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वधवा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. 23/पी.बी.-III/2009--भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ पीपीएस ग्रेड से संबंधित अधिकारी श्री हरविंद सिंह (जन्मतिथि : 10.09.1949), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30.09.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी  
(पी.बी.-I एवं III)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2010

शुद्धि-पत्र

सं. क्यू/पीए-II/578/30/09--हमारे दिनांक 05 जनवरी, 2010 के पिछले समसंख्यक आदेश के अनुसरण में 2009 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षार्थियों की नियुक्ति की तारीख को निम्नानुसार पढ़ा जाए :--

क्रम सं.	अध्यर्थी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री मनदावगने अनिकेत गोविंद	31.08.2009 (अपराह्न)
2.	सुश्री चित्रांगना सिंह	31.08.2009 (अपराह्न)
3.	श्री आशीष शर्मा	31.08.2009 (अपराह्न)
4.	सुश्री नीलम रानी	31.08.2009 (अपराह्न)

2. शेष मदें वही रहेंगी, जो हमारे पिछले आदेश में शामिल हैं।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव  
(एफएसपी व कैडर)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2010

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनाएं

सं. 2/2010 (फा.सं. ए-39012/09/2009-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री धनराजू एस., सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर का

दिनांक 11.12.2009 (अपराह्न) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. 3/2010 (फा. सं. ए-38012/31/2009-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री अजय कुमार अग्निहोत्री, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल की दिनांक 02.03.2010 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

सं. 4/2010 (फा. सं. ए-32012/20/2006-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री के. पी. पासवान (जन्म तिथि 01.01.1950) को दिनांक 30.07.2009 से अगले आदेशों तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8,700/- रु. के साथ गैर कार्यात्मक प्रवर ग्रेड प्रदान करते हैं।

2. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न न्यायालयों में वरिष्ठता के विवाद न्यायाधीन हैं, उपर्युक्त अधिकारी को अकार्यरत प्रवर ग्रेड दिया जाना ऐसे अदालती मामलों के परिणाम के अधीन होगा। इस आदेश का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

एस. के. देब, अवर सचिव

#### वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. ए-19012/1/2007-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक, अपने स्वयं के प्रभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण-II, चण्डीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

सं. ए-19012/1/2007-डीआरटी--श्री जी. बी. पटनायक 21 जनवरी, 2010 (अपराह्न) से ऋण वसूली अधिकरण-I, चण्डीगढ़ के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री ओ. पी. वर्मा, पीठासीन अधिकारी,

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली को अगले आदेश होने तक, अपने स्वयं के प्रभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण-I, चण्डीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. ए-32013/2/2009-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह-I (अवर सचिव) में नियुक्ति की संबंधित चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह-I) के पद पर संबंधित चयन सूची वर्ष के 01 जुलाई से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सीएसएल सं.	चयन सूची
1.	श्री अमरीक सिंह	5347	2005
2.	श्री एस. गोपाल कृष्ण	4900 ए	2006
3.	श्री जगबीर सिंह फोगाट	5838	2007
4.	श्री जितेन्द्र कुमार मेहन	5976	2008

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव की श्रेणी में नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय की सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005 : ओए सं. 3294 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के.प्र. अधि. नई दिल्ली में और ओ. ए. सं. 2674/2009 शीर्षक श्री एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. उपर्युक्त अधिकारियों का अवर सचिव के पद पर वेतन संबंधित चयन सूची वर्ष के 01 जुलाई से कल्पित आधार पर निर्धारित किया जाएगा, परन्तु वे अवर सचिव के पद पर अपने वेतन के पुनः निर्धारण के कारण अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से बकाया राशि के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे विद्यमान वेतन नियम के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प के लाभ का प्रयोग करने के भी हकदार होंगे, बशर्ते उन्होंने अपनी चयन सूची वर्ष के 01 जुलाई से पहले तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में प्रोन्नति के समय ऐसा लाभ प्राप्त न किया हो।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. ए-19011/265/2007-स्थापना--वर्ष 2007 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची (उप सचिव) चयन ग्रेड में शामिल होने पर, राष्ट्रपति इस विभाग के अवर सचिव श्री जे. एस. एस. शास्त्री को 11 जनवरी, 2010 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के रूप में पदोन्नत करती हैं। श्री जे. एस. एस. शास्त्री को उनके द्वारा धारित अवर सचिव के पद के वैयक्तिक उन्नयन (अपग्रेडेशन) द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक उप सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात्, यह पद अवर सचिव स्तर पर परिचालित रहेगा।

2. श्री शास्त्री के वेतन व भत्ते आदि उनके नियमित आधार पर उप सचिव का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से एफआर 22 (I)(क)(i) के तहत निर्धारित किए जाने हैं। अतएव, वे चयन सूची वर्ष 01 जुलाई से वेतन के कल्पित निर्धारण के लिए पात्र हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 25 जनवरी 2010

सं. ए-12034/4/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के नियमित अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव कुमार को 15,600—39,100/- रु. (पीबी-3) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में दिनांक 18 जनवरी, 2010 से, पद के नियमित पदधारी के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर छह माह की अवधि के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजीव कुमार को इस तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चित काल के लिए इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2010

सं. ए-12026/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अवर सचिवों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई चयन सूची एवं तारीख से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 15,600—39,100/- + 6,600/- रुपये (सकल वेतन) के वेतन बैंड-3, (पी.बी.-3) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सी.एस.एल. सं.	सीएसएल वर्ष	नियुक्ति की तारीख
(सर्वश्री/सुश्री)				
1.	वी. के. सिन्हा	4402-ए	2004	01.07.2004
2.	मर्सी एपाओ	4433-ए	2004	01.07.2004
3.	बलदेव सिंह समकरिया	5191	2004	01.07.2004
4.	एन. के. भगत	4664-ए	2005	01.07.2005
5.	आर. प्रेम आनंद	5250	2005	01.07.2005

मीताली घोष, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2010

सं. 9/1/2010-प्रशासन--श्री सुमित बोस, भारतीय प्रशासनिक सेवा (म. प्र. : 76) ने वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग) में 01 फरवरी, 2010

के पूर्वाह्न से भारत सरकार के सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. ए-32014/1/2009-संवर्ग--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नीचे बताए गए नियमित सहायकों को 08 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध करवाए जाने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन सूची वर्ष	श्रेणी	तैनाती का स्थान
(सर्वश्री)					
1.	ऋषि पाल	14.03.1968	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
2.	श्रीमती सुशीला कन्नन	15.01.1951	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
3.	राजेश शाह	19.08.1954	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
4.	श्रीमती अनिल गुप्ता	02.03.1951	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
5.	राम गोपाल	01.08.1957	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
6.	श्रीमती बेला पुरी	05.08.1951	1993	सामान्य	पू.नि.म.नि
7.	जे. एन. शाह	02.01.1963	1998	अ.ज.जा.	पू.नि.म.नि

2. ये तदर्थ प्रोन्नतियाँ/नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- तदर्थ प्रोन्नति की अवधि नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
- ये तदर्थ नियुक्तियाँ, नियुक्त अधिकारियों को उक्त वर्ग में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- ये तदर्थ नियुक्तियाँ, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता कोट या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक जारी रहेंगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की दशा में, उन्हें उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख को नियमित अधिकारी (नियमित अनुभाग अधिकारी) उपलब्ध हो जाएंगे अर्थात् जिस तारीख से वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आर्बिट्रट संबंधित कैडर में कार्यभार संभाल लेंगे।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

## औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली-110107, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. ए-12023/3/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद पर श्रीमती सुनीति शर्मा की तदर्थ नियुक्ति को 25 मई, 2010 तक की अवधि के लिए अथवा तैनाती के लिए नियमित संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के उपलब्ध हो जाने अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं। इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी को पद पर नियमित नियुक्ति अथवा संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. आई-34011/10/2005-आरटीआई--इस विभाग की दिनांक 6.10.2005 की अधिसूचना सं. एफ.-23014/16/2005-व्य-III में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री आर. एस. गर्ग, निदेशक को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित उन सभी मामलों के लिए जो उनके प्रभार में आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

श्री सी. एम. नागराजन, उप सचिव जो इस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का नाम इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है।

श्री एम. एस. धाकड़, निदेशक, जिन्हें यूनिडो-आईसीएएमटी परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, का नाम भी इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है।

बाबू लाल, उप सचिव

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी 2010

सं. ए-19011/5/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में विशेष सचिव, श्री एस. सुंदरेशन, भा.प्र.से. (केरल : 76) को दिनांक 31 जनवरी, 2010 (अपराह) से सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2010

सं. ए-23011/1/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में नियुक्ति के लिए वर्ष, 2003 हेतु प्रवरण सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों के नाम शामिल होने

के परिणामतः उन्हें 1.07.2003 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव ग्रेड) के रूप में नियुक्त किया है :-

1. श्री मोहन लाल सिडाना, अवर सचिव
2. श्री ओम प्रकाश, अवर सचिव
3. श्री राम चन्द्र, अवर सचिव

2. उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव के पद पर अपनी वास्तविक रूप से नियुक्ति की तारीख से अपने वेतन के पुनर्निर्धारण के परिणामतः बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों का एफआर-22 के प्रावधान के अनुसार अपने वेतन के निर्धारण हेतु विकल्प देने का अधिकार प्राप्त है। तथापि ऐसे अधिकारी, जो 01, जुलाई, 2003 से पूर्व तदर्थ आधार पर अवर सचिव पदोन्नत हुए थे और उन्होंने स्प्लिट विकल्प का लाभ उठाया था यह विकल्प देने के पात्र नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रवरण सूची में शामिल अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचाराधीन सिविल रिट याचिका संख्या 13352/205 में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

राम चन्द्र, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. ए-12011/5/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 के आदेश संख्या 16/9/2009-ईओ (एस.एम.1) के अनुसरण में और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी. सी. खटुवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 76) को 24 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन वायदा बाजार आयोग, मुंबई में सचिव के वेतन अर्थात् 80,000/- रुपए (नियत) में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2010

सं. ए-38013/3/2009-स्था.-I-- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी श्री हरभजन चंद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2010 के अपराह से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

सं. ए-38012/2/2009-स्था.-I-- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर सचिव श्रीमती नीलम बाला कपूर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2010 के अपराह से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. ए-12011/01/96-स्था.--राष्ट्रपति, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत डॉ. महाराज किशन भान की नियुक्ति को 62 वर्ष की आयु अर्थात् 30.11.2009 के पश्चात् 30.11.2011 तक दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष विस्तार देते हैं।

प्राची सरूप, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2010

सं. ए-19011/22/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 5/6/2007-सीएस.-II दिनांक 21.12.2009 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए-12025/01/08-प्रशासन-1 (ए) दिनांक 13 जनवरी, 2010 और संख्या ए-32011/02/03-प्रशासन-1 (ए) दिनांक 20.01.2010, के अनुसरण में श्री राम किशन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 12/1/2010 के पूर्वाह्न से जैवप्रौद्योगिकी विभाग की स्ट्रेथ में ले लिया गया है।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. पृ.वि.मं./21/05/2008-स्था.--अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप डॉ. के. भट्टाचार्य, वैज्ञानिक 'जी' 30 सितम्बर, 2009 की अपराह्न से भारत सरकार से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. म.वि.वि./44-स्था./160/90--अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप श्री सुरेश सिंह, अनुभाग अधिकारी 30 नवम्बर, 2009 की अपराह्न से भारत सरकार से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. म.वि.वि./11/2/2002-स्था.--अधिवर्षिता की आयु होने के परिणामस्वरूप श्री इंद्रजीत मित्तल, निजी स्टाफ अधिकारी 30 नवम्बर, 2009 की अपराह्न से भारत सरकार से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2010

सं. ए-12025/1/2008-डी.एफ.क्यू.सी.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, डॉ. नारायणन मुरुगेशन सुपुत्र श्री एल. नारायणन को

दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक निदेशक, केन्द्रीय औषध जौंच प्रयोगशाला, चेन्नै के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर स्वीकार्य भर्ती सहित 12,000-375-16,500/- रुपये (संशोधन पूर्व) (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. नारायणन मुरुगेशन दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 1 फरवरी 2010

सं. ए-12025/36/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. मीनाक्षी को दिनांक 04.11.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/-+ 5,400/- रुपये (पी.बी.-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. मीनाक्षी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. मीनाक्षी की परीक्षा अवधि नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक होगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. ए-11013/2/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/4/2009-ईओ (एमएम.-I) के अनुसरण में श्री कमल नयन चौबे, भारतीय आरक्षी सेवा (झारखंड : 86) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) के निजी सचिव के रूप में 9 जून, 2009 के पूर्वाह्न से 25 फरवरी, 2012 तक या उनके मंत्री जी के लिए निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक या अगले आदेशों तक, जो इनमें सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-32013/4/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में चार वर्षों की अवधि के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री तिरुपति वेंकटस्वामी, 18.1.2010 (पूर्वाह्न से) आई.ए. एवं ए.एस. (2000)
2. श्री सूबे सिंह, 19.1.2010 (पूर्वाह्न से) आई.ई.एस. (1999)

अनिल उनियाल, अवर सचिव

## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. ए-38012/2/2009-प्रशासन-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री जयपाल सिंह, उप सहायक महानिदेशक अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन (आर. के. के.)

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. 32011/2/2009-स्थापना-II--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित सहायक आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस), श्री बी. एस. नेगी को 12 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान के साथ 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में इसी विभाग में नियमित प्रोन्नति आधार पर उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. 38012/10/2009-स्थापना-I--श्री पूरन चन्द, उप सचिव (सी.एस.एल संख्या-3340), कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2010

सं. ए-12023/3/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री एस. पी. चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन

विभाग में नियमित प्रोन्नति आधार पर 19 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- + 7,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में उप आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

सं. एफ.-15-2468/09-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री अतुल जर्नादन सिरसिकर, आईएफएस (हरियाणा : 94) को उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 27.4.2012 तक के लिए, जो दोनों कार्यकाल अवधियों सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम और नॉन सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम पदों में अधिकतम 7 वर्ष की सीमा के अधधीन है, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए 23.12.2009 के पूर्वाह्न से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं। उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 28.4.2005 से शुरू होता है।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. ए-12034/01/2009-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री प्रसाद अडेल्ली, उपायुक्त, सीमा-शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) के कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में 21.10.2009 के (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पूर्णतः अस्थायी और मंत्री के कार्यकाल के साथ सह-सत्रावसानी आधार पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2009

सं. ए-43018/1/2008-स्थापना-1--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, और दिनांक 15.1.2009 की समसंख्यक अपनी अधिसूचना के प्रतिस्थापन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यमदों के विषय में अपीलीय प्राधिकारी नामित करता है :-

क्र. सं.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पद	पता और दूरभाष सं.	कार्यमद
1	2	3	4
1.	डॉ. अरविन्द प्रसाद, संयुक्त सचिव	कमरा सं. 612, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। दूरभाष सं. 011-23384284	(i) राष्ट्रीय संस्थानों सहित विकलांगता प्रभाग (ii) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के आर एंड आर उप समूह से संबंधित कार्य (iii) सतर्कता

1	2	3	4
2.	श्री पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव	कमरा सं. 616, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। दूरभाष सं. 011-23387269	(i) अनुसूचित जाति विकास प्रभाग (ii) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (iii) बाबू जगजीवनराम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
3.	सुश्री पूर्णिमा सिंह, संयुक्त सचिव	कमरा सं. 613, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। दूरभाष सं. 011-23387924	समाज रक्षा प्रभाग
4.	श्री एस. मित्रा, उप महानिदेशक	कमरा सं. 610, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। दूरभाष सं. 011-23383853	(i) डाटा एक्त्रीकरण, सांख्यिकी की प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार (ii) समन्वय (iii) संसद (iv) पिछड़ा वर्ग प्रभाग
5.	श्री जे. सी. शर्मा, आर्थिक सलाहकार	कमरा सं. 611, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। दूरभाष सं. 011-23383004 011-23381643	(i) प्रेम डिवीजन का कार्य (ii) मंत्रालय के कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक विश्लेषण (प्रभाव विश्लेषण सहित) विशेष रूप से :--  (क) मंत्रालय के लक्ष्य समूहों के आर्थिक विकास की योजना और ;  (ख) मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत निगमों का निष्पादन  (iii) प्रशासन प्रभाग (iv) मीडिया (v) निम्नलिखित मदें भी उनके कार्य के भाग हैं :--  (क) सभी अनुसंधान अध्ययनों या मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययनों का समन्वयन,  (ख) अन्य बातों के साथ मंत्रालय के लिए इसकी अनुप्रयोगिता एवं विविक्षा को शामिल करते हुए विकेन्द्रीकृत तरीके से बजट दस्तावेजों की विशेषताओं से संबंधित सूचना को प्रसारित करना,  (ग) मंत्रालय के कार्यक्रम में आर्थिक सलाहकारों और आर्थिक कार्य विभाग के साथ भी नियमित आधार पर अन्तर विभागीय विचार-विमर्श सुनिश्चित करना।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

सं. 11019/1/2005-स्था.--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11.12.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 12016/9/एस.ए.जी./2008-आई.एस.एस. (खण्ड-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार डी. को दिनांक 14.12.2009 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

सं. 42018/11/2004-स्था.-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 4/1/2009-सीएसआई (डी) के अनुसरण में तथा संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के दिनांक 17.12.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 1-3/2009-प्रशा. के तहत कार्यमुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति, श्रीमती सुनीता को जनजातीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 17.12.2009 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जनवरी 2010

सं. 3(7)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित निजी सचिवों को इस विभाग में दिनांक 15.01.2010 के पूर्वाह्न से 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/- रुपये के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया है :--

- (1) श्री रघुनाथ अगासे
- (2) श्री बी. रामाकृष्णन
- (3) श्री आतम प्रकाश
- (4) श्रीमती लीलम्मा जॉर्ज
- (5) श्री राजकुमार
- (6) श्रीमती ज्योति अरोड़ा
- (7) श्रीमती अलका खट्टर
- (8) श्री शिवराम दास
- (9) श्री राजेश मेहता

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

को इस विभाग में दिनांक 15.01.2010 के पूर्वाह्न से 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/- रुपये के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है :--

- (1) श्री आलम सिंह बिष्ट
- (2) श्री बैसाखु राम
- (3) श्री आदर्श कुमार
- (4) श्री सुरेन्द्र जीत
- (5) श्री संजीव कुमार अरोड़ा
- (6) श्री विनोद कुमार

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 21 जनवरी 2010

सं. 3(11)/2009-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 20.01.2010 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रुपये के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने (इन-सीटू)/वैयक्तिक आधार पर अनुभाग अधिकारी (एनएफएसजी) नियुक्त किया है :--

- (1) श्री बी. एस. रावत
- (2) श्री एस. के. त्यागी
- (3) श्री एम. पी. सिंह
- (4) श्रीमती अंसा जॉन
- (5) श्री टी. पी. मोहन
- (6) श्री श्री भगवान
- (7) श्रीमती ललिताम्बिका नायर
- (8) श्री जगदीश प्रसाद
- (9) श्री संजीत चौधरी
- (10) श्रीमती सतिन्दर भाटिया
- (11) श्री जगबीर सिंह
- (12) श्रीमती मीनाक्षी कुमार
- (13) श्री जेम्स कुजूर
- (14) श्री हरीश कुमार कपूर
- (15) श्री देवेन्द्र पाल

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(5)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों

सं. 3(12)/2009-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के

निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को दिनांक 20.01.2010 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रुपए के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने (इन-सीटू)/वैयक्तिक (एनएफएसजी) आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया है :—

- (1) श्री आनन्द सागर नेगी
- (2) श्रीमती रजनी गुप्ता
- (3) श्रीमती रेनु तायल
- (4) श्रीमती आशमा गांधी
- (5) श्री संजय जोशी
- (6) श्री संजय कुमार गुप्ता
- (7) श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- (8) श्रीमती शकुन्तला छाबड़ा
- (9) श्रीमती जगदीप कौर सेठी
- (10) श्रीमती पुष्प लता सिक्का
- (11) श्रीमती रेनु गुलाटी
- (12) श्री स्तानिसलास लकड़ा
- (13) श्रीमती अंजु शर्मा
- (14) श्रीमती रामिन्दर नागी
- (15) श्रीमती कविता गोदवानी
- (16) श्रीमती ऊषा साहनी
- (17) श्री पदम सिंह

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 2(7)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्रीमती आशा नांगिया कर्मचारी कोड-990 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 08.01.2010 के पूर्वाह्न से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर), एसटीक्यूसी नदेशालय, नई दिल्ली से स्थायी स्थानान्तरण आधार पर 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400—67,000/- रुपए के वेतन बैंड में ज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है।

2. उन्हें इस विषय में भारत सरकार के नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार वेतन प्राप्त होगा।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. 2(12)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने डॉ. अमनदीप सिंह, आईआरएस (सीएण्डसीई : 97) को सात वर्ष की संयुक्त अवधि के तर्गत दिनांक 8.6.2009 (पूर्वाह्न) से तथा 4.9.2013 तक अथवा जब क वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं करते

अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 के संशोधित वेतन ढाँचे में राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) राज्य मंत्री (पी.) का निजी सचिव नियुक्त किया है। केन्द्र में उनका कार्यकाल दिनांक 5.9.2006 से शुरू हुआ है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. 3(12)/2009-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैयक्तिक सहायक श्री दिनेश कुमार सागर को दिनांक 25.01.2010 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रुपए के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने (इन-सीटू)/वैयक्तिक (एनएफएसजी) आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 जनवरी 2010

सं. 4(557)/93-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक (स्वस्थाने/वैयक्तिक), श्रीमती जानकी अनन्त कृष्णन (कर्मचारी कोड सं. 279) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगी।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. पीएफ/2598/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति एतद्द्वारा श्री देबशीष घोष, कर्मचारी कोड सं. 2598 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-पश्चिम बंगाल राज्य एकक, कोलकाता से वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक प्रशासन-I

दिनांक 29 जनवरी 2010

सं. पीएफ/547/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री एन. कृष्ण कुरुप, उप निदेशक (कर्मचारी कोड सं. 547) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक प्रशासन-I

सं. पीएफ/220/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री रमेश कुमार सैनी, निदेशक (कर्मचारी कोड सं. 220) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से

अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक प्रशासन-I

सं. पीएफ/145/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री पूरन पाल, वैज्ञानिक "ई" (कर्मचारी कोड सं. 145) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 जनवरी, 2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक प्रशासन-I

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2010

सं. ई(जी.पी.) 2009/3/17--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के रेल सुरक्षा बल के श्री डी. लॉलिमाओ (अ.ज.जा.), निरीक्षक (ग्रुप 'सी') की 04.06.2004 से ग्रुप 'ए' के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2001 के पैल में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2. अतः दिनांक 30.07.2009 की अधिसूचना सं. ई (जी.पी.) 2006/3/17 द्वारा उपरोक्त अधिकारी की 18.05.2009 से वर्ष 2008 के पैल में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. 2001/ई(जीआर)II/7/3--राष्ट्रपति जी, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2000 के आधार पर चयनित डॉ. राजन गुप्ता को 18.12.2001 से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रविन्द्र पाण्डेय, उप निदे. स्था. (राज.)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. ए-32013/10/2008-ई-II (खंड)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत अधिकारियों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नयी दिल्ली में उनके नाम के आगे दी गई तारीख से वेतनमान (वेतनमान बैंड-4) रु. 37,400--67,000 + 8,700/- ग्रेड पे में नियमित आधार पर अधीक्षक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
1.	श्री ए. श्रीवास्तव	09.06.2009
2.	श्री पी. श्रीनिवास	09.06.2009
3.	श्री संजय गर्ग	09.06.2009

1	2	3
3.	श्री संजय गर्ग	09.06.2009
4.	श्री अजमेर सिंह	09.06.2009
5.	श्री दिग्विजय मिश्र	09.06.2009
6.	श्री मनोज कुमार	09.06.2009
7.	श्री सदरे आलम	09.06.2009
8.	श्री नवीन कुमार	09.06.2009
9.	श्री यु. एम. शाम्भरकर	09.06.2009
10.	श्री पी. आर.मीना	09.06.2009

देव राज शम  
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. ए-19012/835/2001-ई-I (बी)--विद्यमान प्रतिनियुक्ति कार्यकार के पूरा होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग से वापस आने व परिणामस्वरूप श्रीमती आशा गुलाटी, निजी सचिव को दिनांक 01.12.2009 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संख्या बल में शामिल किया जाता है।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. ए-19011/16/04-स्थापना-1--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव श्री प्रभाकर निवर्तन की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

पोत-परिवहन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. एल एच-21013/2/2009-एस एल--राष्ट्रपति मुख्य दीपपाल (वरिष्ठ वेतनमान)/वरिष्ठ रेडियो टेक्नीशियन ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में प्रत्येक अधिकारी के नाम व समक्ष इंगित की गई तारीख से, अगले आदेशों तक पीबी-2, 9,300-34,800/रुपए + ग्रेड पे 4,200/- (संशोधित) 6,500-200-10,500/- रु. (संशोध पूर्व) के वेतनमान में सहायक अभियंता (इलैक्ट्रॉनिक्स) के पद पर पदोन्नत करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
1.	श्री वी. बाबू सहायक अभियंता (इलैक्ट्रॉनिक्स)	12.05.2009
2.	श्री आर. एल. चौधरी, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रॉनिक्स)	14.03.2009 (अपराह्न)

1	2	3
3. श्री एस. आर. पाल, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल्स)		18.06.2009
4. श्री वी. कुमारन, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल्स)		25.04.2009
5. श्री एस. के. घोष, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल्स) (अपराहन)		05.03.2009
6. श्री के. एच. भंबानिया, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल्स)		29.03.2009
(अधिवर्षिता आयु पूरी होने पर 31.05.2009 को सेवानिवृत्त)		
7. श्री ए. मसीलामनी, सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल्स)		05.08.2009
एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव		

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 15 दिसम्बर 2009

सं. 418/2009 फा. सं. 6/1/2007-प्रशा. II--महामहिम राष्ट्रपति, श्री उदय कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (म.प्र. : 76), अपर सचिव को दिनांक 24 नवंबर, 2009 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में स्व-स्थाने पदोन्नयन होने पर विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

राम फल, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. 24/2010 फा. सं. 12/9/2009-प्रशा. II--महामहिम राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.01.2010 के का. जा. सं. 11/7/2009-ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में श्री एम. अन्नादुरई, भा.सू.से. (वर्ष 1995) को, 'कूलिंग ऑफ' संबंधी आवश्यकता में ढील देते हुए, पद ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 21.07.2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक कि वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी घटना सबसे पहले घटित हो 8,700/- रु. के ग्रेड पे सहित पे बैंड-4 (37,400—67,000/- रु.) में निदेशक के स्तर पर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री एस. जगतरक्षकन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. श्री अन्नादुरई की नियुक्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. जगतरक्षकन) की इच्छा से तथा उनके कार्यकाल तक जारी रहेगी।

राम फल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2010

सं. ए-12025/1/2006-आईआईएस--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने वाले खाने में दी हुई

तिथि से 6,500-200-10,500/- रु. (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में भारतीय सूचना सेवा वर्ग "ख" के वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	अधिकारी नाम	सेवा में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान एवं पद का नाम	कार्य-स्थल
1.	सुश्री सास्वती भट्टाचार्यी	16.11.2009. (पूर्वा.)	समाचार संपादक,	आकाशवाणी, सिलचर
2.	श्री सोनीकुमार सिंह कौजेंगबाम	19.11.2008 (पूर्वा.)	समाचार संपादक,	आकाशवाणी, ईटानगर
3.	श्री सुनील कौल	07.10.2008 (पूर्वा.)	एम एंड सीओ, पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू	
4.	श्री शिव हरि नायक मुडे	06.10.2008 (पूर्वा.)	एफपीओ, डीएफपी, कुर्नुल	
5.	श्री शुभरंजन बुरागोहैं	24.02.2009 (पूर्वा.)	समाचार संपादक,	आकाशवाणी, कोहिमा

2. उपर्युक्त पदाधिकारी भारतीय सूचना सेवा वर्ग "ख" के वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से दो (02) वर्षों तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. उपर्युक्त अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित संबंधित कार्यालयों में भारतीय सूचना सेवा वर्ग "ख" के वरिष्ठ ग्रेड के पद पर तैनात किया गया है।

रेणू अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. 31/2010 फा. सं. 6/2/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री डी. पी. रेड्डी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पीबी : 85) को दिनांक 22 जनवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

शाम लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2010

सं. 801/2/2005-एफ (सी)--फिल्म प्रभाग के श्री बाबू राम्मासामी, निदेशक, जो वर्तमान में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, चेन्नई में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.01.2010 (अप.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अमिताभ कुमार, निदेशक (फिल्म)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2010

सं. ए-32012/03/2008-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, डा. ए.के. चक्रवर्ती को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 18,400-500-22,400/- रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजी फासली), मुंबई में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 25th January 2010

No. A.22012/2/2010-PM Estt. (I)—Shri M.K. Narayanan, IPS (Retd.) has relinquished the charge of the post of National Security Adviser with effect from the afternoon of 23rd January, 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A-22012/2/1010-PM Estt.(II)—The President is pleased to appoint Shri Shivshankar Menon, IFS (Retd.) as National Security Adviser in the rank and status of Minister of State with effect from the afternoon of 23rd January 2010 until further orders.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st February 2010

No. RS/1289/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri S.K. Kathuria, Joint Secretary retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy Director

No. RS/2274/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Mangat Rai Varma, Joint Director retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy Director

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 19th January 2010

No. A-43011/06/2009-Adm. I—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07th January, 2010, the President is pleased to appoint the following officers who are officiating as Under Secretaries on ad-hoc basis in Planning Commission, as Under Secretaries (Grade-I of CSS) on regular basis w.e.f. the dates noted against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year/CSL No.	Date of regular appointment
1.	Smt. Sunita Beck	2006 (6563)	01.07.2006
2.	Shri Kanwar M.S. Khalsa	2007 (5835)	01.07.2007
3.	Shri Subhash Chander	2008 (6040)	01.07.2008

2. The seniority of the officers included in the Select List annexed to DOPTs' aforesaid O.M. will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade-I. The

appointment of the abovementioned officers as Under Secretaries on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UOI in CAT, New Delhi, and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari vs. UOI & Ors.

3. The appointment of the officers as Under Secretaries w.e.f. the abovementioned dates would be for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits however would be available only from the date, officers are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

4. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per the provisions of FR 22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to exercise the option.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 25th January 2010

No. F.6 (2081)/2009-Adm. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 22/1/2010-EO (SM.I), dated 12th January, 2010, Shri R. Bhattacharya, IAS (AP: 78) is relieved from Planning Commission with effect from the forenoon of 27th January, 2010 to take up his new assignment as Additional Secretary and Financial Adviser, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, New Delhi.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 11th January 2010

No. a. 32012/6/2009-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint Shri G. S. Yadav, Assistant Legal Adviser, to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade. III of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3, [Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-] in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.01.2010 for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further order, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of his seniority in the higher grade.

M.K. SHARMA,  
Jt. Secy. & Legal Adviser



No. A. 32012/6/2009-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint Shri E. Saravana Kumar, Assistant Legal Adviser to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade. III of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3, (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.01.2010 for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further order, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of his seniority in the higher grade.

M. K. SHARMA,  
Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A. 32012/6/2009-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint Smt. Kusum Lata Singh, Superintendent (Legal) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade. IV of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3, [Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-] in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.01.2010 for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further order, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Assistant Legal Adviser nor the services so rendered by her will count for the purpose of her seniority in the higher grade.

M. K. SHARMA,  
Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A. 32012/6/2009-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint Shri M.S. Tariq, Assistant Legal Adviser, to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade. III of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3, (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.01.2010 for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further order, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of his seniority in the higher grade.

M. K. SHARMA,  
Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A. 32012/6/2009-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint Shri P.K. Saha, Assistant Legal Adviser to officiate as Deputy Legal Adviser (Grade-III of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3, (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 04.01.2010 for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis or until further order, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legal Adviser nor the services so rendered by him will count for the purpose of his seniority in the higher grade.

M. K. SHARMA,  
Jt. Secy. & Legal Adviser

#### DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110 011, the 16th December 2009

No. K. 13011/3/2009-US.-I—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Swatanter Kumar, Chief Justice of the Bombay High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESHABHISHEK, Jt. Secy.

The 12th January 2010

No. K. 13025/5/2009-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Sanjay Yadav, (2) Shri Justice Kedar Singh Chauhan, (3) Shri Justice Satish Chandra Sharma, (4) Shri Justice Prakash Shrivastava, and (5) Smt. Justice Indrani Datta, Additional Judges, to be Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESHABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13027/03/2009-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Bijaya Krishna Patel, Additional Judge of the Orissa High Court, to be a Judge of the Orissa High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESHABHISHEK, Jt. Secy.

The 22nd January 2010

No. K. 11019/2/2010-US.-II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the

President is pleased to appoint Shri Justice Kurian Joseph, seniormost Judge of the Kerala High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 23rd January, 2010 consequent upon the retirement of Shri Justice Samindar Rudrayya Bannurmah, Chief Justice of the Kerala High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th December 2009

No. I-11014/8/2009-IPS.-IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Rajasthan and Tamil Nadu, the Central Government hereby transfers Shri Vijayendra Bidari, IPS (RJ:05) from Rajasthan to the IPS Cadre of Tamil Nadu on the ground of his marriage with Ms. Rohini Ramdas Bhajibhakre, IAS (TN:2008).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 30th December 2009

No. I-18011/16/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course.	Due date of confirmation in the normal course.
1	2	3	4	5
1.	Sh. Amresh Kr. Mishra (2005)	25.08.05	24.08.07	25.08.07
2.	Sh. Sheikh Arif Hussain (2005)	12.12.05	11.12.07	12.12.07
3.	Sh. Mayank Srivastava (2006)	29.08.06	28.08.08	29.08.08

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 28th January 2010

No. A-32013/01/2010-Ad.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2009-CS.I(U), dated 7th January, 2010, the following permanent Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries on ad hoc basis in the Ministry of Home Affairs are appointed to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis consequent upon inclusion

of their names in the Select List for years 2004 to 2008 with effect from 1st July of the corresponding Select List year:—

Sl. No.	CSL No.	Name of Officer	Seniority assigned in Grade of CSS as per annexure to the DoP&T's OM No. 5/8/2009-CS.I (U), dated 7th January, 2010
---------	---------	-----------------	---

1	2	3	4
SELECT LIST-2004			
1.	5230	Sh. Arvind Mukherjee	55
Select List 2005			
2.	4742A	Sh. H. K. Suanthang	19
3.	5247	Sh. S. K. Gandhi	33
4.	5251	Smt. Lalit Prabha Srivastava	37
5.	5255	Sh. Pritam Lal	41
6.	5263	Sh. R. K. Jain (Retd.)	45
7.	5271	Sh. Ved Prakash Gubrani	49
8.	5332	Sh. R. V. Subramani	67
9.	5337	Sh. Chandra Mohan Bhatla	69
10.	5376	Sh. M. K. Chaudhury	96
11.	6082	Sh. Dharm Singh	102
SELECT LIST-2006			
12.	5385	Sh. Ajay Kumar Sumbly	21
13.	5393	Sh. Amar Chand	26
SELECT LIST 2007			
14.	5673	Sh. V. Vishwanathan	25
15.	5677	Sh. B. V. Ramana Murthy	28
16.	5694	Sh. P. P. Gupta	42
17.	5760	Sh. M. K. Bhardwaj	55
18.	5777	Sh. Ajit Kumar Sahu	68
19.	5833	Sh. C. M. K. Thakur	115
20.	5954	Sh. Arun Kumar Dhyani	136
SELECT LIST-2008			
21.	5962	Sh. T. Narsimhan	8
22.	5996	Sh. Subhash Chander Sharma (Retd.)	25
23.	6054	Sh. K. Natarajan	53
24.	6056	Sh. Rabindra Pd. Gupta	54
25.	6122	Sh. Surendra Prasad Pant	62
26.	6124	Sh. Vijay Tehlan	64

2. The appointment of the above officers included in the Select Lists of 2004 to 2008 to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3249/200

titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors.

3. The appointment of the officers may be deemed to have been made effective with effect from 1st July of the corresponding Select List year for the purpose of approved service as well as for fixation of their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date, the officers are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

4. The officers would be entitled to arrears on account of refixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary. They shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per the provisions of extant pay rules. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option. The option is to be exercised within 30 days from the date of issue of this order.

J. B. SHARMA, Under Secy.

No. A-32013/01/2010-Ad.-I—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and officiating as Under Secretaries on ad hoc basis in the Ministry of Home Affairs to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 1st July of the corresponding Select List year:—

Sl. No.	CSL No.	Name of Officer	Seniority assigned in Grade-I of CSS as per annexure to the DoP&T's OM No. 5/8/2009-CS.I (U), dated 7th January, 2010
---------	---------	-----------------	---

1	2	3	4
---	---	---	---

#### SELECT LIST-2004

1. 5230 Sh. Arvind Mukherjee 55

#### SELECT LIST-2005

2. 4742A Sh. H. K. Suanthang 19  
 3. 5247 Sh. S. K. Gandhi 33  
 4. 5251 Smt. Lalit Prabha Srivastava 37  
 5. 5255 Sh. Pritam Lal 41  
 6. 5263 Sh. R. K. Jain (Retd.) 45  
 7. 5271 Sh. Ved Prakash Gubrani 49  
 8. 5332 Sh. R. V. Subramani 67  
 9. 5337 Sh. Chandra Mohan Bhatla 69  
 10. 5376 Sh. M. K. Chaudhury 96  
 11. 6082 Sh. Dharm Singh 102

#### SELECT LIST-2006

12. 5385 Sh. Ajay Kumar Sumbly 21  
 13. 5393 Sh. Amar Chand 26

#### SELECT LIST-2007

14. 5673 Sh. V. Vishwanathan 25  
 15. 5677 Sh. B. V. Ramana Murthy 28  
 16. 5694 Sh. P. P. Gupta 42

1	2	3	4
17.	5760	Sh. M. K. Bhardwaj	55
18.	5777	Sh. Ajit Kumar Sahu	68
19.	5833	Sh. C. M. K. Thakur	115
20.	5954	Sh. Arun Kumar Dhyani	136

#### SELECT LIST-2008

21.	5962	Sh. T. Narsimhan	8
22.	5996	Sh. Subhash Chander Sharma (Retd. Voluntarily)	25
23.	6054	Sh. K. Natarajan	53
24.	6056	Sh. Rabindra Pd. Gupta	54
25.	6122	Sh. Surendra Prasad Pant	62
26.	6124	Sh. Vijay Tehlan	64

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 1st February 2010

No. I-14011/9/2009-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 22/01/2010, approved the Select List of 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 09/12/2009, containing the names of the following State Police Service Officers of Rajasthan, towards filling up six substantive vacancies in the Rajasthan Cadre of Indian Police Service during 2009:—

#### SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Bahadur Singh Rathaur	24.03.1955
2.	S. N. Khinchi	25.02.1959
3.	Rajendra Kumar Joshi	02.07.1955
4.	Satya Veer Singh	01.09.1961
5.	Rajesh Meena	10.11.1967
6.	Sawai Singh Chaudhary	01.02.1958

2. The aforementioned Select List shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (Civil) No (s). 266/2008 and 238-39/2009 (Bhanwar Singh Nathawat & Another vs. UOI & Others), DB Civil Writ Petition No. 2900/2009 (Om Prakash Sharma vs. UOI & Others) and S.B. Civil Writ Petition Nos. 5771/2009, 13209/2009 and 7430/2009 filed by S/Shri S.N. Khinchi, U. N. Chhanwal and Sawai Singh Chaudhary respectively vs. Government of Rajasthan & Others pending before the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jaipur.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/9/2009-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Rajasthan Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Rajasthan under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

## SELECT LIST-2009

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Bahadur Singh Rathaur	24.03.1955
2.	S. N. Khinchi	25.02.1959
3.	Rajendra Kumar Joshi	02.07.1955
4.	Satya Veer Singh	01.09.1961
5.	Rajesh Meena	10.11.1967
6.	Sawai Singh Chaudhary	01.02.1958

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

3. The aforementioned appointments shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (Civil) No. (s). 266/2008 and 238-39/2009 (Bhanwar Singh Nathawat & Another vs. UOI & Others), DB Civil Writ Petition No. 2900/2009 (Om Prakash Sharma Vs. UOI & Others) and S.B. Civil Writ Petition Nos. 5771/2009, 13209/2009 and 7430/2009 filed by S/Shri S. N. Khinchi, U. N. Chhanwal and Sawai Singh Choudhary respectively vs. Government of Rajasthan & Others pending before the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jaipur.

O. S. ASHOK, Under Secy.

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 22nd January 2010

No. 13016/11/2008-Trg-I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Kundi, Under Secretary of the CSS Cadre of Ministry of Water Resources, as Deputy Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) New Delhi, on deputation basis, for a period of five years w.e.f. the forenoon of 27.11.2009 or until further orders, whichever is earlier.

ANITA ALEXANDER, Under Secy.

## DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 27th January 2010

No. 19011/1/2010-Admn.I.—The President is pleased to appoint Ms. Tripti P. Ghosh, ICAS (1994) as Director in the

Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions with effect from the forenoon of 1st January, 2010, for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

V. K. WADHWA, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th December 2009

No. 23/PB-III/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Harvinder Singh (DOB : 10.09.1949), an officer belonging to the Sr. PPS Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30.09.2009.

M. B. VERMA, Admn. Officer (PB-I & III)

New Delhi, the 20th January 2010

## CORRIGENDUM

No. Q/PA-II/578/30/09—In pursuance of our earlier order of even number dated 5th January, 2010, the date of appointment of following IFS Probationers of 2009 Batch may please be read as under:—

Sl. No.	Name of the Candidate	Date of Appointment
1.	Mr. Mandavgane Aniket Govind	31.08.2009 (AN)
2.	Ms. Chitrangna Singh	31.08.2009 (AN)
3.	Mr. Ashish Sharma	31.08.2009 (AN)
4.	Ms. Neelam Rani	31.08.2009 (AN)

2. The remaining items will be same as contained in our earlier order.

R. GAURAV SHRESTH, Dy Secy. (FSP & Cadre)

## MINISTRY OF FINANCE

### (DEPARTMENT OF REVENUE)

#### CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, dated 27th January 2010

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 2 of 2010 (F.No. A-39012/9/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Shri Dhanaraju S., Assistant Commissioner of Central Excise, Jaipur w.e.f. 11.12.2009(AN) from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise).

S. K. DEB, Under Secy.

The 28th January 2010

No. 3 of 2010 (F.No. A-38012/31/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary

Retirement of Shri Ajay Kumar Agnihotri, Commissioner of Central Excise, Bhopal with effect from 02.03.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S.K. DEB, Under Secy.

post of Under Secretary (Grade-1 of CSS) on regular basis with effect from 1st July, of the respective Select List year as given below :—

S. No.	Name & Designation	CSL No.	Select List
	S/Shri		
1.	Amrik Singh, Under Secretary	5347	2005
2.	S. Gopal Krishna, under Secretary	4900-A	2006
3.	Jagbir Singh Phaugat, Under Secretary	5838	2007
4.	Jitender Kumar Mehan, Under Secretary	5976	2008

No. 4/2010 (F.No.-A-32012/20/2006-Ad.II)—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade in the Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8,700/- (corresponding to pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) in the Junior Administrative Grade in the Central Board of Excise and Customs on ad-hoc basis to Shri K.P. Paswan (D.O.B. 01.01.1950) with effect from 30.07.2009, until further orders.

2. In view of the fact that matters relating to the seniority dispute are sub-judice in various courts, the grant of Non-Functional Selection Grade to the above officer shall be subject to outcome of such court cases. The order has no bearing on the inter-se seniority of the officers in the Junior Administrative Grade.

S.K. DEB, Under Secy.

2. The appointment of abovementioned officers to the grade of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi: OA No. 3294 titled Sh. P. R. Sharma vs. UoI in CAT, New Delhi and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari vs. UoI & ors.

3. The pay of abovementioned officers in the post of Under Secretary will be fixed with effect from 1st July, of the respective Select List years on notional basis, but they would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the date of their actual appointment to the post of Under Secretary. In addition, they shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as per provision of extant pay rule, provided they had not availed the such benefit when promoted as Under Secretary on ad-hoc basis prior to 1st July, of their Select List years.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

The 15th January 2010

No. A-19011/265/2007-Estt.—Consequent upon inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2007, the President is pleased to promote Shri J. S. S. Sastry, Under Secretary of this Department as Deputy Secretary of CSS on regular basis with effect from 11th January, 2010. Shri J. S. S. Sastry is appointed as Deputy Secretary by personal upgradation of the post of Under Secretary held by him as Deputy Secretary upto the date of his superannuation. Thereafter, the post will operated at Under Secretary level.

2. The pay and allowances etc. of Shri Sastry are to be fixed under FR 22(1)(a)(1) with effect from the date of taking over the charge of Deputy Secretary on regular basis. He is, however, eligible for notional fixation of pay w.e.f. 1st July of the Select List year.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 19th January 2010

No. A-19012/1/2007-DRT—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri Ashok Kumar Tripathi, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh, in addition to his own charge, with immediate effect and until further orders.

AMRIK SINGH, Under Secy.

No. A-19012/1/2007-DRT—Shri G.P. Patnaik, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh, will demit the charge of Presiding Officer with effect from 21st January, 2010 (AN).

In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri O.P. Verma, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Delhi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh, in addition to his own charge until further orders.

AMRIK SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 11th January 2010

No. A-32013/2/2009-Estt.—Consequent upon inclusion in the respective Select Lists for appointment to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, the President is pleased to appoint the following Officers to the

The 25th January 2010

No. A-12034/4/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, a regular Research Officer in Department of Financial Services, Ministry of Finance to the post of Senior Research Officer (Group A) for a period of six months on an ad-hoc basis in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 18th January, 2010 or till repatriation of the regular incumbent of the post from deputation or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment shall not confer on Shri Rajiv Kumar any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Senior Research Officer.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 1st February 2010

No. A-12026/2/2010-Ad. I.—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band (PB-3), Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (GP) with effect from the date and in the Select List as shown against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.	CSL Year	Date of appointment
1.	Shri V. K. Sinha	4402-A	2004	01.07.2004
2.	Ms. Mercy Epao	4433-A	2004	01.07.2004
3.	Shri Baldev Singh Samkria	5191	2004	01.07.2004
4.	Shri N. K. Bhagat	4664-A	2005	01.07.2005
5.	Shri R. Prem Anand	5250	2005	01.07.2005

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110 003, the 3rd February 2010

No. 9/1/2010-Admn.—Shri Sumit Bose, IAS (MP : 76), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Disinvestment) with effect from the forenoon of 1st February, 2010.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

[DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)]

New Delhi, the 15th January 2010

No. A-32014/1/2009-Cadre.—The President is pleased to appoint the undermentioned Regular Assistants of CSS

Cadre of Department of Commerce (Supply Division) as Section Officers on ad-hoc basis with effect from 08.01.2010 (FN), till further orders, or till regular Section Officers are made available by DoPT, whichever is earlier in the Department of Commerce (Supply Division) :—

Sl. No.	Name	D.O.B.	SL Year	Cat.	Place of posting
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	Rishi Pal	14.03.1968	1993	Genl.	DGS&D
2.	Smt. Susheela Kannan	15.01.1951	1993	Genl.	DGS&D
3.	Rajesh Shah	19.08.1954	1993	Genl.	DGS&D
4.	Smt. Anil Gupta	02.03.1951	1993	Genl.	DGS&D
5.	Ram Gopal	01.08.1957	1993	Genl.	DGS&D
6.	Smt. Bela Puri	05.08.1951	1993	Genl.	DGS&D
7.	J. N. Shah	02.01.1963	1998	ST	DGS&D

2. The ad-hoc promotion/appointment would be subject to the following conditions :—

- The period of ad-hoc promotion would be till regular Section Officers are made available, or until further orders, whichever is earlier.
- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.
- Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority quota of Limited Department Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them, by DoPT.

PARMJIT SINGH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110 107, the 12th January 2010

No. A-12023/3/2008-E.I.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Smt. Suniti Sharma as Joint Director (Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry for a period upto 25.05.2010 or till a regular Joint Director (Official Language) becomes available for posting or until further orders whichever is the earliest. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right for regular appointment to the post or to claim seniority in the grade of Joint Director (Official Language).

P. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi, the 12th January 2010

No. I-34011/10/2005-RTI.—In partial modification of this Department's Notification No. F-23014/16/2005-E-III dated 06.10.2005, Shri R. S. Garg, Director is designated as Central Public Information Officer in terms of Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005 for all the matters under his charge in Department of Industrial Policy & Promotion.

Name of Sh. C. M. Nagarajan, Deputy Secretary who has retired on superannuation from this Department stands deleted from the list of Central Public Information Officers of this Department.

Name of Sh. M. S. Dhakad, Director who has been selected as Project Director of UNIDO-ICAMT Project also stands deleted from the list of Central Public Information Officers of this Department.

BABU LAL, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st February 2010

No. A-19011/5/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. Sundareshan, IAS (KL : 76), Special Secretary in the Ministry, as Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, with effect from the afternoon of 31st January, 2010.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi, the 8th January 2010

No. A-23011/1/2009-Estt.—The President is pleased to appoint the undermentioned regular Section Officers of the Central Secretariat Service to Grade-I (Under Secretary Grade) of Central Secretariat Service on Regular basis with effect from 01.07.2003, consequent upon the inclusion of their names in the Select list for the year 2003 for appointment to Grade-I of CSS :—

1. Shri Mohan Lal Sidana, Under Secretary
2. Shri Om Prakash, Under Secretary
3. Shri Ram Chander, Under Secretary

2. The above mentioned Officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from their actual appointment to post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided in provision of FR-22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 01st July, 2003 and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

3. Further the appointment of the officers included in the aforesaid Select List, in the grade of Under Secretary, on

regular basis, shall be subject to final outcome in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

RAM CHANDER, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 28th January 2010

No. A-12011/5/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 16/9/2009-EO [SM. I dated the 14th December, 2009 and in exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952], the President is pleased to appoint Shri B. C. Khatua, IAS (MH : 76) as Chairman, Forward Market Commission, Mumbai, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, in the pay of Secretary i.e. Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of the 24th November, 2009 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 25th January 2010

No. A-38013/3/2009-E.I.—Shri Harbhajan Chand, Section Officer of the CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation w.e.f. afternoon of 31st January, 2010.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

No. A-38012/2/2009-E.I.—Smt. Neelam Bala Kapoor, Under Secretary of the CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation w.e.f. the afternoon of 31st January, 2010.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 30th November 2009

No. A-12011/01/96-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Dr. Maharaj Kishan Bhan as Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology for a period of two years beyond the age of 62 years i.e. beyond 30.11.2009 till 30.11.2011 or until further orders, whichever is earlier.

PRACHI SAROOP, Dir.

New Delhi-110 003, the 21st January 2010

No. A-19011/22/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2007-CS. II dated 21.12.2009 and Department of Science & Technology's Office Order No. A-12025/01/08-Admn. I(A) dated 13th January, 2010 and No. A-32011/02/03-Admn. I(A) dated 20.01.2010, Shri Ram Kishan, Sr. Principal Private Secretary is taken over on the strength of Department of Biotechnology with effect from the forenoon of 12th January, 2010.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

#### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110 003, the 19th January 2010

No. MOES/21/05/2008-Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Dr. K. Bhattacharya, Scientist 'G' retired from Government Service from the afternoon of 30th September, 2009.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

The 25th January 2010

No. DoD/44-Estt./160/90.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Suresh Singh, Section Officer, retired from Government Service from the afternoon of 30th November, 2009.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

No. DoD/11/2/2002-Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Inder Jeet Mittal, PSO, retired from Government Service from the afternoon of 30th November, 2009.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th January 2010

No. A-12025/1/2008-DFQC.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Narayanan Murugesan S/o Shri L. Narayanan, to the post of Director, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai on direct recruitment basis in the Pay Scale of Rs. 12,000-375-16,500/- (pre-revised) (Group 'A' Gazetted) plus admissible allowances in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd December, 2009 and until further orders.

2. Dr. Narayanan Murugesan will be on probation for a period of two years.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 1st February 2010

No. A-12025/36/2007-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Meenakshi to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 04.11.2009 until further orders. Dr. Meenakshi is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Meenakshi shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th January 2010

No. A-11013/2/2009-Estt. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 5/4/2009-EO (MM-I) dated 5.1.2010, the President is pleased to appoint Shri Kamal Nayan Choubey, IPS (JH : 86) as Private Secretary to the Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Dinesh Trivedi) in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 9th June 2009 upto 25th February 2012 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

The 19th January 2010

No. A-32013/2/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint the following officers as Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare for a period of four years with effect from the date shown against each or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Thiruppathi Venkatasamy, w.e.f. 18.01.2010 (FN) IA&AS (2000)
2. Shri Sube Singh, IES (1999) w.e.f. 19.01.2010 (FN)

ANIL UNIYAL, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 28th January 2010

No. A-38012/2/2009-Admn.-I.—Shri Jai Pal Singh, Deputy Assistant Director General (PFA) of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2009 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

##### (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 12th January 2010

No. 32011/02/2009-E. II.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Negi a regular Assistant Commissioner



(NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation as Deputy Commissioner (NRM/RFS) on regular promotion basis in the same Department in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 12th January, 2010, till further orders.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2010

No. 38012/10/2009-Estt. I.—Shri Puran Chand, Deputy Secretary (C.S.L. No. 3340) in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2010 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 20th January 2010

No. A-12023/3/2009-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Chaturvedi, Assistant Commissioner (Fisheries) as Deputy Commissioner (Fisheries) in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) w.e.f. the forenoon of 19th January, 2010 on regular promotion basis in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

P. L. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

##### (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 24th December 2009

No. F. 15-2468/09-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Atul Janardhan Sirsikar, IFS (HY : 94) as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from the forenoon of 23.12.2009 for the balance period of his Central deputation tenure i.e. upto 27.04.2012 subject to a maximum ceiling of 7 years in both the stints (Central Staffing Scheme and Non Central Staffing Scheme posts) or until further orders, whichever event takes place earlier. He counts his Central Deputation tenure w.e.f. 28.04.2005.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 27th October 2009

No. A-12034/01/2009-Estt.-II.—The President is pleased to appoint Shri Prasad Adelli, Deputy Commissioner, Office of the Commissioner of Customs, Chennai, as Additional Private Secretary in the Office of the Minister for Social Justice and Empowerment (Shri Mukul Wasnik) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/-

w.e.f. 21.10.2009 (F.N.) on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 16th November 2009

No. A-43018/1/2008-Estt.-I.—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of its Notification of even number dated 15/1/09 the Ministry of Social Justice and Empowerment hereby designates the following officers as the Appellate Authorities for the purpose of implementation of the Right to Information Act, 2005 in respect of items of work shown against them :—

Sl. No.	Name of the Appellate Authority and Designation	Address and Telephone No.	Items of Work
1	2	3	4
1.	Dr. Arbind Prasad, Joint Secretary	Room No. 612, A Wing Shastri Bhavan, New Delhi.  Tel. No. 011-23384284	(i) Disability Division including National Institutes. (ii) The work relating to R&R Sub Group of Narmada Control Authority. (iii) Vigilance
2.	Shri P. P. Mitra, Joint Secretary	Room No. 616, A Wing Shastri Bhavan, New Delhi  Tel. No. 011-23387269	(i) Scheduled Castes Development Division. (ii) Dr. Ambedkar Foundation. (iii) Babu Jagjivan Ram National Foundation.
3.	Ms. Purnima Singh, Joint Secretary	Room No. 613, A Wing Shastri Bhavan, New Delhi. Tel. No. 011-23387924	Social Defence Division.
4.	Shri S. Maitra, Deputy Director General	Room No. 610, A Wing Shastri Bhavan, New Delhi.  Tel. No. 011-23383853	(i) Data collection, processing and dissemination of Statistics. (ii) Coordination (iii) Parliament (iv) Backward Class Division.
5.	Shri J. C. Sharma, Economic Adviser	Room No. 611, A Wing Shastri Bhavan, New Delhi.  Tel. No. 011-23383004 011-23381643	(i) Work of PREM Division. (ii) Economic Analysis (including impact analysis) of various aspects of Ministry's work especially. (a) Schemes of Economic Development of the Ministry's target groups, and; (b) Performance of the Corporations working under the Ministry.

1	2	3	4
			(iii) Administration Division.
			(iv) Media
			(v) The following items are also part of his work :—
			(a) Coordination of all the research studies or studies sponsored by the Ministry.
			(b) Disseminating information on the salient features of the Budget Documents in a de-centralized manner covering inter-alia its applicability and implication for the Ministry.
			(c) Ensure intra department interaction of Economic Advisers in the functioning of the Ministry and also with Department of Economic Affairs on regular basis.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd December 2009

No. 11019/1/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/9/SAG/2008-ISS(Vol.-I) dated 11.12.2009, the Preident is pleased to apoooint Shri Pradip Kumar De, Deputy Director General in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 14.12.2009.

A. K. SAHA, Under Secy.

New Delhi, the 30th December 2009

No. 42018/11/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/1/2009-CS.I(D) dated 30.11.2009, on being relieved by the Ministry of Communications & IT, Department of Posts vide their Office Order No. 1-3/2009-Admn. dated 17.12.2009, the President is pleased to appoint Smt. Sunita to the post of Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs on regular basis w.e.f. the forenoon of 17.12.2009.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 20th January 2010

No. 3(7)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint the following Private Secretaries of Department of

Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Principal Private Secretary on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 15.01.2010:—

- (i) Sh. Raghunath Agashe
- (ii) Sh. V. Ramakrishnan
- (iii) Sh. Atam Prakash
- (iv) Smt. Leelamma George
- (v) Sh. Raj Kumar
- (vi) Smt. Jyoti Arora
- (vii) Smt. Alka Khattar
- (viii) Sh. Shiv Ram Dass
- (ix) Sh. Rajesh Mehta

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 3(5)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Deputy Director on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 15.01.2010 :—

1. Sh. Alam Singh Bisht
2. Sh. Baisakhu Ram
3. Sh. Adarsh Kumar
4. Sh. Surenderjeet
5. Sh. Sanjeev Kumar Arora
6. Sh. Vinod Kumar

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 21st January 2010

No. 3(11)/2009-P.I.—The Secretary is pleased to appoint the following Assistants of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Section Officer (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 20.01.2010 :—

- (i) Sh. B. S. Rawat
- (ii) Sh. S. K. Tyagi
- (iii) Sh. M. P. Singh
- (iv) Smt. Ansa John

- (v) Sh. T. P. Mohan
- (vi) Sh. Sri Bhagwan
- (vii) Smt. Lalithambika Nair
- (viii) Sh. Jagdish Prasad
- (ix) Sh. Sanjit Choudhury
- (x) Smt. Satinder Bhatia
- (xi) Sh. Jagbir Singh
- (xii) Smt. Meenakshi Kumar
- (xiii) Sh. James Kujur
- (xiv) Sh. Harish Kumar Kapur
- (xv) Sh. Devender Pal

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 3(12)/2009-P.I.—The Secretary is pleased to appoint the following Personal Assistants of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Private Secretaries (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 20.01.2010 :—

- (i) Sh. Anand Sagar Negi
- (ii) Smt. Rajini Gupta
- (iii) Smt. Renu Tayal
- (iv) Smt. Ashma Gandhi
- (v) Sh. Sanjay Joshi
- (vi) Sh. Sanjay Kumar Gupta
- (vii) Sh. Pradeep Kumar Sharma
- (viii) Smt. Shakuntala Chhabra
- (ix) Smt. Jagdeep Kaur Sethi
- (x) Smt. Pushp Lata Sikka
- (xi) Smt. Renu Gulati
- (xii) Sh. Stanislas Lakra
- (xiii) Smt. Anju Sharma
- (xiv) Smt. Raminder Negi
- (xv) Smt. Kavita Godwani
- (xvi) Smt. Usha Sahni
- (xvii) Sh. Padam Singh

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 2(7)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint Smt. Asha Nangia (E. Code-990) as Scientist 'E' in

the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 08.01.2010 on permanent transfer basis from Electronics Regional Test Laboratory (North), STQC Directorate, New Delhi.

2. She will draw pay as per rules and instructions of the Govt. of India on the subject.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 22nd January 2010

No. 2(12)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint Dr. Amandeep Singh, IRS, (C&CE : 97) as Private Secretary to Minister of State (Communications & Information Technology)—MoS(P) in the revised structure of pay of Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 08.06.2009 (Forenoon) and upto 04.09.2013 under the combined tenure of seven years or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. He Counts tenure at center w.e.f. 05.09.2006.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 28th January 2010

No. 3(12)/2009-P.I.—The Secretary is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Sagar, Personal Assistant of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Private Secretary (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 25.01.2010.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 29th January 2010

No. 4(557)/93-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Smt. Janaki Anantha Krishnan, Deputy Director (in-situ/personal) (E. Code-279), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service with effect from the afternoon of 31.01.2010.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 28th January 2010

No. PF/2598/NIC/2009/Adm.-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Debasis Ghosh, Emp. Code-2598, from the post of Scientist "C", NIC-West Bengal

State Unit, Kolkata with effect from the afternoon of 25.02.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

The 29th January 2010

No. PF/547/NIC/2009/Adm.-I—Shri N. Krishna Kurup, Deputy Director (Emp. Code : 547), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2010 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

No. PF/220/NIC/2009/Adm.-I—Shri Ramesh Kumar Saini, Director (Emp. Code : 220), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2010 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

No. PF/145/NIC/2009/Adm.-I—Shri Puran Pal, Scientist "E" (Emp. Code : 145), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2010 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.-I)

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st February 2010

No. E(GP)/2009/3/17—The President is pleased to appoint Shri D. Lowlimao (ST), Inspector (Group 'C') of Railway Protection Force of Indian Railways as Assistant Security Commissioner in Junior Scale of Group 'A', with effect from 04.06.2004 against the panel for the year 2001.

2. Accordingly, the appointment of the abovementioned officer to Junior Scale/Group 'A' w.e.f. 18.05.2009 against the panel for the year 2008 vide notification No. E (GP) 2006/3/17 dated 30.07.2009, is hereby cancelled.

K.B.L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

New Delhi, the 27th January 2010

No. 2001/E(GR) II/7/3—The President is pleased to appoint Dr. Rajan Gupta as Assistant Divisional Medical Officer selected on the basis of Combined Medical Services

Examination, 2000 in the Indian Railway Medical Service with effect from 18.12.2001.

RAVINDER PANDEY, Dy. Dir. Estt. (Gaz)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 22nd January 2010

No. A-32013/10/2008-E. II—The President is pleased to appoint the following Executive Engineers (Civil) to the post of Superintending Engineer (Civil) of Central Engineering Services (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport & Highways, in the Pay Scale (Pay Band-4) Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- Grade Pay on regular basis w.e.f. the date mentioned against their names :—

SL. No.	Name of Officer	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	A. Srivastava	09.06.2009
2.	P. Srinivas	09.06.2009
3.	Sanjay Garg	09.06.2009
4.	Ajmer Singh	09.06.2009
5.	Digvijay Mishra	09.06.2009
6.	Manoj Kumar	09.06.2009
7.	Sadre Alam	09.06.2009
8.	Navin Kumar	09.06.2009
9.	U. M. Shambharkar	09.06.2009
10.	P. R. Meena	09.06.2009

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 9th December 2009

No. A-19012/835/2001-E.I(B)—Consequent upon her repatriation from National Commission for Protection of Child Rights on completion of her existing tenure of deputation, Smt. Asha Gulati, PS is taken on the strength of Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 01.12.2009 (FN).

V. KRISHNA SWAMY, Under Secy.

The 22nd January 2010

No. A-19011/16/2004-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri Prabhakar, Deputy Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways retired from Government Service w.e.f. 31.12.2009 (A.N.).

V. KRISHNA SWAMY, Under Secy.

## DEPARTMENT OF SHIPPING

New Delhi, the 14th January 2010

No. LH-21013/2/2009-SL—The President is pleased to promote the following officers in the grade of Head Lightkeeper (Senior Scale)/Senior Radio Technician to the post of Assistant Engineer (Electronics) in the pay scale of PB-2 Rs. 9300—34800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/- (revised) Rs. 6500-200-10,500 (pre-revised) in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each:—

1. Shri V.Babu, Assistant Engineer (E) 12.05.2009
2. Shri R.L. Choudhary, Assistant Engineer (E) 14.03.2009(A.N)
3. Shri S.R. Pal, Assistant Engineer (E) 18.06.2009
4. Shri V. Kumaran, Assistant Engineer (E) 25.04.2009
5. Shri S.K. Ghosh, Assistant Engineer (E) 05.03.2009(AN)
6. Shri K.H. Bhambania, Assistant Engineer (E) 29.03.2009  
(Since retired on superannuation on 31.5.2009)
7. Shri A. Masilamony, Assistant Engineer (E) 05.08.2009

S.K. GOSWAMI, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi-110001, the 15th December 2009

No. 418/2009 (F. No. 6/1/2007-Admn.II)—The President is pleased to appoint Shri Uday Kumar Varma, IAS (MP:76), Additional Secretary, on in-situ elevation as Special Secretary, in Ministry of Information & Broadcasting with effect from 24th November, 2009.

RAM PHAL, Under Secy.

The 18th January 2010

No. 24/2010 (F. No. 12/9/2009-Admn.II)—Pursuant of DoP&T's O.M. No. 11/7/2009-EO(MM-I) dated 14.1.2010, the President is pleased to appoint Shri M. Annadurai, IAS (95) as Private Secretary to the Minister of State of Information & Broadcasting (Shri S. Jagathrakshakan), at the level of Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67000/-) with Grade Pay of Rs. 8700/-, in relaxation of the 'cooling off' requirement, for a period of five years with effect from date of taking over charge of the post i.e. 21.07.2009 (F/N) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. The appointment of Shri Annadurai will be at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of State of Information & Broadcasting (Shri S. Jagathrakshakan).

RAM PHAL, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2010

No. A-12025/1/2006-IIS—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the Competent Authority in the Ministry of Information and Broadcasting is pleased to appoint the following candidates in the Senior Grade of Indian Information Service Group 'B' in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) with effect from the dates mentioned in the column against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining in the service	Present place of Posting and designation
1.	Ms. Saswati Bhattacharjee	16.11.2009(FN)	News Editor, Air Silchar
2.	Sh. Sonikumar Singh Konjengbam	19.11.2008(FN)	News Editor, AIR, Itanagar
3.	Sh. Sunil Koul	07.10.2008(FN)	M&CO, PIB, Jammu
4.	Sh. Siva Hari Naik Mude	06.10.2008(FN)	FPO, DFP Kurnool
5.	Sh. Subha Ranjan Buragohain	24.02.2009(FN)	News Editor, AIR Kohima

2. The above officials will be on probation for a period of two (02) years with effect from the date of appointment in the Senior Grade of Indian Information Service Group 'B'.

3. The above officials have been posted against the post of Senior Grade of Indian Information Service Group 'B' in the respective offices mentioned against their names.

RENU ARORA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 22nd January 2010

No. 32/2010 (F. No. 6/2/2007-Admn.II)—Consequent upon joining this Ministry as Joint Secretary, Shri D.P. Reddy, IAS (PB:85), shall look after the work of the Films Wing in the Main Secretariat of this Ministry as Joint Secretary (Films), vice Shri V.B. Pyarelal, IAS (AM:83), Joint Secretary, with immediate effect and until further orders.

2. Shri V.B. Pyarelal, IAS (AM:83), Joint Secretary, presently working as Joint Secretary (Films & P&A), shall now look after the work of Joint Secretary (P&A) in the Main Secretariat of this Ministry, with immediate effect and until further orders.

SHAM LAL, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2010

No. 801/2/2005-F(C)—Shri Babu Rammasami, Director, Films Division presently working as Regional Officer, Central Board of Film Certification, Chennai on deputation basis, will stand retired from Government Service on 31.01.2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

AMITABH KUMAR, Director (Films)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 25th January 2010

No. A-32012/03/2008-ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. A.K. Chakrabarti to the post of Director General, Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai in the pre-revised pay Scale of Rs. 18,400-500-22,400/-, with effect from 01.01.2010 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.